

विद्याभवन, बालिका विद्यापीठ, लक्खीसराय

रूपम कुमारी ,. वर्ग -दशम(स) 

विषय – पाठ्य सहगामी अभिक्रिया

दिनांक- ५/६/२०

॥ क्रियाकलाप -सामग्री ॥



जीवन-आँगन में फुदकती छात्राएँ !

आज समूचा विश्व पर्यावरण दिवस मना रहा है ।

गहराई से अवलोकन करें तो हमारे आसपास मौजूद दृश्य और अदृश्य चीजों की एक श्रृंखला बनी हुई है इसकी हमें एक महत्वपूर्ण कड़ी है । वे दृश्य और अदृश्य तत्व भौतिक

रासायनिक एवं जैविक रूप में विद्यमान हैं
और हमारे जीवन के मूलाधार हैं ।

प्रकृति के विवेकशील संतान होने के कारण
इन तीनों कारकों का दोहन सबसे अधिक हम
करते हैं तो संरक्षण की जिम्मेदारी भी हमारी
बनती है ।

आप सबों को आज आपके विद्यालय ने एक
बढ़िया मौका दिया प्रकृति -प्रेम को अपने
तरिके से प्रकट करने का । उत्साह से शामिल
हो जाइए पर्यावरण दिवस में अपनी
रचनात्मकता के रंग उड़ेलने के लिए ----

- आप विश्व पर्यावरण दिवस पर निबंध
लेख सकती हैं ।(अपनी भाषा में)
- अथवा

- आप इससे जुड़ा कोई चित्र बना सकती हैं ।

अथवा

- आप कोई कविता लिख सकती हैं . ।

अथवा

- आपभाई -बहनों के साथ मिलकर अपने घर -आँगन की सफाई का वीडियो क्लिप भेज सकती हैं ।

अथवा



The Evening

^
REPLY

craft के जरिए पेड़ -पौधे बना सकती हैं

1

अनिवार्य :

अपने गमले में कोई एक औषधीय पौधा
(तुलसी , एलोवेरा या गिलोय जैसा)

जरूर लगाएँ ।

रोचक :

कोई ऐसे फिल्मी गीत सुनें जिसमें
पर्यावरण से जुड़े हुए lyrics हों और
उसकी चर्चा Group पर करें ।

या,

छत पर जाएँ और आसपास के दृश्यों
का अवलोकन करें और चित्र में दी गई
तस्वीर की तरह कोई वास्तविक देखें
और अपने कैमरे में कैद करें(यह चित्र
नेट से नहीं दी गई है)

निर्देशानुसार कार्य को करें ।इसकी
अनदेखी ना करें, इसे अनिवार्य मानें !
कल शाम तक भेजें ।

धन्यवाद !